

**Details :**

- Our company products are as per the norms of international drug and cosmetic law.no heavy metal narcotics or steroid is mixed in preparation in our any medicine.
- As per ayurveda there is no provision of making herbal extract so we don't mix any herbal extract.
- The main point we would like to say reader we don't make any product considering patient taste and easy consumption we considers the effectiveness of medicine on disease.

**Canrose Usages :**

- Any type of Blood cancer, it also works to stop carrying cancer cell from one place to other to stop not to from metastatic stage of tumor cancer.
- It also work in acute diabetic condition when gangarone occurred and chace of caryy any organ Cancerous formation can attack any organic system of the human physiology. As part of blood cancer, the rapidly multiplying cancerous cells are found attacking the different aspects of the circulatory system. Besides blood and the lymphatic system; the bone marrow can also be the focus of attack.

**Blood cancer – Its kinds and types :**

- Primarily, there are three basic types of blood cancer. Each of the variety may also include several variations, but in general this cancer is categorized into the following kinds.
- Leukemia - With spurt in the multiplicity of cancerous cells affecting either the marrow or the blood; the ability of the circulatory system to produce blood is severely impaired with.
- Lymphoma - The cancerous formation affecting the lymphocytes is referred to as the lymphoma. Lymphocytes are one of the varieties of white blood corpuscles.
- Myeloma - As part of Myeloma, the plasma (another variety of WBC) is affected by the cancerous formation.

**Dr. Thanki's Can Rose Capsule :** It works in blood cancer patient as well as in cancer patients. It works as killing malignant cells thru blood stream. To destroy tumour capacity is very less in this product. But after treatment of Tum Can Capsule We are suggestive to give this capsule to a cancer patient because it works through blood stream to kill malignant cells. It will not permit to regeneration of malignant cells it works as missile to malignant cells.

**Dosage :** 1gm. to 10 Kg. of patient wt. means if a patient has a weight of 50 kg. means 10 Capsule Per day, divided into 2 or 3 time a day.

**Key Ingredient :** Catharanthus roseus

**Diet Chart :**

- Whenever a person is diagnosed with blood cancer it is assumed that he is suffering with a non-curable disease but as per our ancestral holy books it is curable and patient may be free from cancer by taking Ayurvedic treatment. In this age besides Ayurveda there are other path's are available like Homeopath, Allopath etc. The blood cancer can be treated by these path's also. Blood cancer is a disease which develops as self generated diseases in a human body and it

is abide by all path's that the self generated disease in a human body is only because of imbalance of harmones and enzymes.

- A blood cancer patient should not take any kind of food which can provide nutrition to cancer cells means along with any kind of medicine cancer feeder diet should be stopped.
- We have read thru a lot of books and discussed with a lot of Doctors of all path's on this issue and finally we are giving this diet chart for Blood cancer patient.
- **The diet should be given to a Blood cancer patient :**
  - Dry Fruit - Dry Palm, Apricot, Dry fig, currant, Dry grape, Walnut, Almond.
  - Fruits - Papaya, Banana, Coconut water, sweet lime, pomegranate, sapote.
  - Vegetables - Spinach, Awala, Ginger, Fresh Lime, carrot, lady finger, cucumber, white pumpkin, Ivy gourd, pointed gourd.–
  - Juice - Patient should take juice of above mentioned vegetables only. ( juice of any fruit is prohibited).
  - Milk - Every day patient should be given a cup of cow milk mixed with half or three forth tsp. full of turmeric once in a day.
  - Tulsi - Patient should take 21 leaves of Shyam Tulsi as swallowing with water.
  - Wheat grass - Fresh wheat grass juice approximately 50ml should be provided to patient twice a day. (if possible)
  - Flex seed - One tsp. of crushed flex seeds should be given to patient twice a day by the way of sprayed on salads or fruit bowl.
  - Sugar - Make any preparation for sweetness utilize sugar free tablets or powders. (sugar and its products are totally ban to patient )
  - Sprouted - Moth & Mung should be sprouted and than give to the patient early in the morning.
  - Indian bread - To prepare bread wheat first wash wheat then dry in sunshine than grind only make bread of that wheat flour, second option is patient can take bread of moong (dal), flour and third option is patient can take bajra or nachni flour bread if available.
  - Rice - If you are going to give any rice preparation to the patient provided only brown rice (unpolished rice) to the patient.
  - Ghee - Cow Ghee can be provided to patient but in less quantity. (It should be observed surely that ghee should not mix with Buffalo ghee)
  - Oil - Only soya bean or sunflower oil can be give. (but in less quantity)
  - Sleep - the patient should try to have a sound sleep.
  - Walking - The patient should walk gently in the garden or near by the trees or plants to take fresh oxygen. Patient should take deep breathe in that area. (Should not walk in these areas in night as trees and plants are releasing Carbon-Dio-Oxide in night.)
  - Sunlight - Patient should avoid warm and sunlight.
  - Exercise - Patient should do the exercise of in taking long breath and release and light yoga to have mental peace.
  - Salt - for taste in food patient should be provided sea salt
  - Water - Patient should be provided fresh & pure water. It should be considered that the water should not have toxins or heavy metals. If available provide packaged drinking water confirmed ISI mark of any brand.
  - Pappya - If available give one cup tea of pappya leaves

**The Patient Should Not Take :**

- Much oil and deep fried preparation.
- Stale food.
- Sugar and Products made by it.
- Salt (Iodised)
- Packaged food.
- Milk and its allied products (Note - Paneer, Curd, Mawa, Cheese, butter milk, etc., Any type of fruit juice.)

**From The Desk Of Chairman :** As we know that blood cancer may arise in childhood or at old age so there is no any perfect cause is detected neither it may cure. Still the scientist are not sure to say this symptoms as cancer but we know if the medicine does not work to a patient or the symptoms occurs again and again than doctors are saying word allergy like that the symptoms of patient or the report of blood parameters shows quite abnormal doctors are saying it as blood cancer. Though it is carable so don't afraid. Still our research team working on this issue to find solution to cure as tumuor cancer. Still to day we can care

**Contain 100 Capsule of 500mg each**

### Dr. Thanki's Can- Rose capsule

( each capsule contain 500mg. )

This medicine can stop irregular mitotic cell division of red blood cells. It works with same efficiency on Leukomia, Lymphoma, Mylomea.

It has capacity to kill malignant cell which are hidden in any part of patient body by reaching them thru blood stream.

After a long research on several patients Dr. suggested to prescribe this medicine to tumor cancer patient in post treatment period to avoid repeatation of tumor cancer or malignant cell in future.

Dose: 1 capsule to 5kg body weight of patient means suppose a patient is 45kg. in weight, 9 capsule should be given as divided in three times a day means 3 capsules three times a day.

Note: Maximum dose can be given as 6gm. Per day means 12 capsule as above mentioned dosages.

Patient should strictly follow diet chart while treatment is going on as mentioned below:-

#### The diet should be given to a cancer patient :

1. Dry Fruit : Palm, Apricot, Anjir, Munnakka, Kismiss, Walnut, Almond.
2. Fruits : Papaya, Banana, Coconut water, sweet lime, pomegranate, chikoo.
3. Vegetables : Spinach, Awala, Ginger, Fresh Lime, carrot, lady finger, cucumber, white pumpkin, ghosby, parwal.
4. Juice : The vegetables mentioned in no. 3 you can give fresh juice of any of the vegetable or a mixture of these vegetables.
5. Every day patient should be given a cup of cow milk mixed with half or three forth tsp. full of turmeric once in a day.
6. Patient should take 21 leaves of Shyam Tulsi as swallowing with water.
7. Fresh wheat grass juice approximately 50ml should be provided to patient twice a day. (if possible)
8. One tsp. of crushed flex oil seeds should be given to patient twice a day by the way of sprayed on salads or fruit bowl.
9. To make any preparation for sweetness utilize sugar free tablets or powders.
10. If available please give a cup of tea prepared by papaya leaves.
11. Gram, Moth & Mung should be sprouted and than give to the

patient.

12. Mung flour should be used to make bread (if Pearl Millet (Bajri) is available can take of Pearl Millet (Bajri) flour for bread also in diet, if want to take wheat first wash wheat then dry in sunshine than grind only this wheat can use to prepare bread.)
13. If you are going to give any rice preparation to the cancer patient provided only brown rice (unpolished rice) to the patient.
14. Cow Ghee can be provided to patient but in less quantity. (It should be observed surely that ghee should not mix with Buffalo ghee).
15. If you think to provide any preparation of oil please provide soya bean or sunflower oil only.
16. Should try that the patient should have a sound sleep.
17. The patient should walk gently in the garden or near by the trees or plants to take fresh oxygen. Patient should take deep breathe in that area. (Should not walk in these areas in night as trees and plants are releasing Carbon-Dio-Oxide in night.)
18. Patient should not go out in warm sun light.
19. Patient should do the exercise of in taking long breath and release and light yoga to have mental peace.
20. For taste in food patient should be provided sea salt. (Note : It is almost available every part of world).
21. Patient should be provided fresh & pure water. It should be considered that the water should not have toxins or heavy metals. If available provide packaged drinking water confirmed ISI mark of any brand.

#### THE PATIENT SHOULD NOT TAKE :

1. Oil and deep fried preparation by it
2. Maida, Rava etc.
3. Stale food.
4. Sugar and Products made by it.
5. Salt (Iodized)
6. Packaged food.
7. Milk and its allied products  
(Note : Paneer, Curd, Mawa, Cheese etc.)

#### Special :

What suggested taking as food for cancer patient except that all food should be avoided.

## डॉ. धानवी कैम रोह कैप्सूल प्रति कैप्सूल 500 mg

यह दवा खून में विद्यमान लाल रक्त कोशिकाओं के अनावश्यक विघटन क्रिया को रोकने में अभूत पूर्व लाभ देती है। ये तीनों प्रकार के रक्त कर्क रोगों में समान रूप से कार्य करती है। ल्यूकोमिया, लिम्फोमिया तथा मायलोमा ये तीन प्रकार के रक्त कर्क रोग होते हैं। ये दवा खून में घुलकर उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छुपे हुए कर्क कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। कई डाक्टर द्वारा परीक्षण के बाद ये सुझाव मिला कि ट्यूमर कैन्सर के रोगी की पूर्ण चिकित्सा के पश्चात् इस दवा के सेवन करने से रोगी के शरीर में छुपे हुए कर्क कोशिका को नष्ट कर देता है जिससे कालान्तर में कर्क रोग पुनः होने का खतरा नहीं रहता है। मात्रा : रोगी के वजन के अनुसार अथात् रोगी का वजन 45 kg हो तो 9 कैप्सूल प्रति दिन। इस खुराक को तीन बार में लेना चाहिए। यानी 3 कैप्सूल दिन में तीन बार। रोगी का वजन 60 kg से चाहे जितना ज्यादा हो 12 कैप्सूल या 6 ग्राम प्रति दिन से ज्यादा रोगी को नहीं दे सकते।

### कैंसर रोगी की आहार तालिका

कर्क रोग होने पर प्रायः ये माना जाता है कि रोगी को लाइलाज बीमारी हो गयी है, परन्तु पौराणिक ग्रन्थों का अवलोकन करें तो आयुर्वेद इस बीमारी को लाइलाज नहीं मानता अपितु इसका आर्युवेदानुसार इलाज सम्भव है और कर्क रोगी पूर्णतया कर्क रोग मुक्त हो सकता है।

आज के भौतिक युग में आयुर्वेद पद्धति के अलावा होमियोपैथी, एलोपैथी आदि कई पद्धतियाँ प्रचलन में आई हैं। कर्क रोग मनुष्य के शरीर में स्वतः पनपता है तथा आयुर्वेद का मानना है कि मानव शरीर में स्वतः पनपने वाले रोगों की वजह मानव शरीर में Harmones तथा Enzymes का असंतुलन होना है।

कर्क रोग जनित मानव को पथ्य एवं पथ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए कारण कर्क कोशिका को पोषण देने वाले पदार्थ का सेवन करने पर रोगी को दी जाने वाली दवा का असर कम अथवा पूर्णतया नहीं भी हो सकता है। ऐसे रोगी को भोजन में कर्क कोशिका को पोषण देने वाले आहार पूर्णतया हटा देने चाहिए।

भिन्न-भिन्न शास्त्रों तथा चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद हम ये पथ्य एवं अपथ्य की तालिका बनायी है।

कर्क रोगी को उसके घरवालों द्वारा दिए जाने वाला आहार नीचे लिखे मुजब देवें।

पथ्य अर्थात् रोगी को दिया जाने वाला आहार :

1. मेवा (Dry fruit) - खजूर, अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का, किशमिश एवं खुरमानी।
2. फल (Fruit) - अनार, नारियल पानी, बिबू, पपीता, केला एवं मौसंबी।
3. सब्जी (Vegetable) - पालक, आंवला, अदरक, नींबू, गाजर, तौलू, परवल, भिंडी, खीरा एवं लौकी।
4. रस (Juice) - कॉलम नं. 3 में लिखी सब्जियों में से किसी भी सब्जी का ताजा रस निकालकर रोगी को पिला सकते हैं।
5. एक कप गाव के दूध में आधा चम्मच से पौन चम्मच हल्दी मिलाकर दिन में एक बार पिलावें।

6. श्याम तुलसी के 2। पत्ते दिन में दो बार रोगी को पानी के साथ गिटावें।
7. ज्वारे का ताजा तैयार किया हुआ रस 50ML दिन में दो बार पिलावें।
8. एक चम्मच अलसी के बीज का चूरा फलों अथवा सब्जियों के सलाद पर छिड़कर दो बार रोगी को खिलावें।
9. किसी भी चीज में मिठास लाने के शर्करा फ्री उत्पादों का इस्तेमाल करें।
10. यदि उपलब्ध हो तो पर्याप्त के पत्तों को पानी में उबालकर छान लेवें तथा उस पानी को चाय की तरह पीयें।
11. चना, मोठ एवं मूंग ताजा अंकुरित कर खावें।
12. रोगी को गेहूँ की रोगी देवें तो सबसे पहले गेहूँ को साफ पानी से अच्छी तरह धो कर धूप में सूखाने के पश्चात् उस गेहूँ के आटे से बनी हुई रोटी ही खिलाएँ। यदि रोगी को स्वाद लगे तो मूंग के दाल के आटे की रोटी तथा बाजरे के आटे की रोटी दे सकते हैं।
13. यदि रोगी को चावल या उससे बनी कोई भी चीज खिलानी हो तो भूरे चावल ही खिलावें। ( भूरे चावल मतलब बिना पॉलिश किए हुए। )
14. रोगी को गाव का घी दे सकते हैं वो भी कम मात्रा में, ( ध्यान रखें गाव के घी में पैस के घी की मिलावट न हो। )
15. तेल का उपयोग कम से कम करें और यदि करना पड़े तो सिर्फ सोयाबीन का तेल ही उपयोग लावें।
16. कोशिश करें कि रोगी को नौद अच्छी आए।
17. रोगी को धीरे-धीरे पैदल टहलना चाहिए तथा ताजी हवा में गहरी सांस लेनी चाहिए। ( टहलने के लिए रोगी को बगीचे या पेड़-पौधों के समीप सुबह-सुबह टहलना चाहिए। रोगी को रात्रि में पेड़-पौधों के पास न टहलावें कारण रात्रि को पेड़-पौधे कार्बन-डाई-ऑक्साइड छोड़ते हैं। )
18. ज्यादा तेज धूप में रोगी को नहीं रखना चाहिए।
19. रोगी को लंबी श्वास लेकर छोड़ने वाला व्यायाम तथा हल्का दिमाग को शांत करने वाला योग करना चाहिए।
20. रोगी को भोजन में स्वाद के लिए प्रयुक्त होने वाला नमक समुद्री नमक (Sea Salt) लेना चाहिए।
21. रोगी को साफ एवं स्वच्छ पानी देना चाहिए। ध्यान रखें, पानी में Toxins, Heavy Metals न रहें।

नोट : प्रायः म्यूनिसिपलटी के पानी में ये शिकायत मिलती है। अतः यदि उपलब्धता हो तो Packaged Drinking Water ISI मार्क वाला ही रोगी को पिलावें।

### अपथ्य अर्थात् रोगी को नहीं दिया जाने वाला आहार :

1. तेल तथा उसमें तली हुई चीजें।
  2. मैदा, सूजी इत्यादि।
  3. बासी भोजन।
  4. चीनी तथा उससे बने व्यंजन।
  5. नमक आयोडीन युक्त।
  6. डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ।
  7. दूध तथा दूध से बनी हुई वस्तुएँ। ( इनका सेवन कम से कम करें। )
- नोट: पनीर दही, मावा, इत्यादि चीजें जो दुध से निर्मित हुई हैं उनका प्रयोग बिल्कुल न करें। विशेष: पथ्य में निर्दिष्ट भोज्य को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएँ अपथ्य हैं।